



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940
No. 528] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

सं. 311-04/2017-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की अधिसूचना, सं. 311-04/2017-क्यूओएस दिनांक 19 जुलाई, 2018, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, क्र. सं. 275 —

- (1) पृष्ठ 103 पर, विनियमन 25 के तहत, उप-विनियमन "(4)" को "(6)" पढ़ा जाएगा।
- (2) पृष्ठ 108 पर, अनुसूची-I में, खंड "4(6) (एफ)" को "4(6)(बी)" पढ़ा जाएगा।
- (3) पेज 109 पर, अनुसूची-I में, खंड "5(5)(सी), 5(5)(डी), 5(5)(ई)" को "5(5)(बी), 5(5)(सी), 5(5)(डी)" पढ़ा जाएगा।
- (4) पृष्ठ 111 पर, अनुसूची-II में, खंड "1(3)" को "1(1)" पढ़ा जाएगा।
- (5) पृष्ठ 112 पर, अनुसूची-II में, खंड "1(4)" को "1(2)" पढ़ा जाएगा।
- (6) पृष्ठ 116 पर, अनुसूची-II में, खंड "6(2)(एफ), 6(2)(जी), 6(2)(एच), 6(2)(आई)" को "6(2)(बी), 6(2)(सी), 6(2)(डी), 6(2)(ई)" पढ़ा जाएगा।
- (7) पृष्ठ 118 पर, अनुसूची-III में, खंड "2(2)(डी)" को "2(2)(बी)" पढ़ा जाएगा।

यू. के. श्रीवास्तव, सचिव इन्चार्ज
[विज्ञापन-III/4/असा./449/18]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 2018

No. 311-04/2017-QoS.—In the notification of the Telecom Regulatory Authority of India, No. 311-04/2017-QoS dated the 19th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, S.No. 275 —

- (1) at page 103, under regulation 25, sub-regulation "(4)" shall be read as "(6)".
- (2) at page 108, in Schedule-I, clause "4(6)(f)" shall be read as "4(6)(b)".
- (3) at page 109, in Schedule-I, clause "5(5)(c), 5(5)(d), 5(5)(e)" shall be read as "5(5)(b), 5(5)(c), 5(5)(d)".

-
- (4) at pages 111, in Schedule–II, clause “1(3)” shall be read as “1(1)”.
 - (5) at pages 112, in Schedule–II, clause “1(4)” shall be read as “1(2)”.
 - (6) at page 116, in Schedule–II, clause “6(2)(f), 6(2)(g), 6(2)(h), 6(2)(i)” shall be read as “6(2)(b), 6(2)(c), 6(2)(d), 6(2)(e)”.
 - (7) at page 118, in Schedule–III, clause “2(2)(d)” shall be read as “2(2)(b)”.

U. K. SRIVASTAVA, Secy. Incharge

[ADVT.-III/4/Exty./449/18]